



मिशन BANK 2023

MATHS

साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज
(SI & CI)

LEVEL 2

पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर

BANK की सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी

BY MATHS GURU



LIVE

03:00 PM



Question Type : singlechoice

QUESTION 1

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

A ने 14400 रुपये 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वह उसी राशि को 1.5 वर्ष के लिए निवेश करता है जब ब्याज दर समान है लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें?

A invested Rs14400 for 3 years at 10% per annum simple interest. If he invested the same amount for 1.5 years when interest rate is same but compounded half yearly. Find the difference between the interests ?

(RBI ASSISTANT 2020)

- 1) 2050.2
- 2) 2250
- 3) 1872.2
- 4) 2150.0
- 5) NOT

0 Answered 0 Not Answered
100 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next

मिशन BANK 2023



QUANTITATIVE APTITUDE

Question Type : singlechoice

QUESTION 1

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

A ने 14400 रुपये 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वह उसी राशि को 1.5 वर्ष के लिए निवेश करता है जब ब्याज दर समान है लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें?

A invested Rs14400 for 3 years at 10% per annum simple interest. If he invested the same amount for 1.5 years when interest rate is same but compounded half yearly. Find the difference between the interests ?

(RBI ASSISTANT 2020)

- 1) 2050.2
- 2) 2250
- 3) 1872.2
- 4) 2150.0
- 5) NOT

1 Answered 1 Not Answered
98 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 2

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

सुरेश ने अपने आईसीआईसीआई बैंक खाते में 3072 रुपये जमा किए, जो 2 साल और 8 महीने की अवधि के लिए 6 (1/4)% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। उसे मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिये?

Suresh deposited Rs3072 in his ICICI bank account which offers 6 (1/4) % compound interest compounded annually for a time period of 2 years and 8 months. Find the interest he will get?

(CRP CLERK MAINS 2020)

- 1) 540.50
- 2) 480.95
- 3) 522.75
- 4) 612.25
- 5) NOT

1 Answered 1 Not Answered
98 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



सुरेश ने अपने आईसीआईसीआई बैंक खाते में 3072 रुपये जमा किए, जो 2 साल और 8 महीने की अवधि के लिए 6 (1/4)% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। उसे मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिये?

Suresh deposited Rs3072 in his ICICI bank account which offers 6 (1/4) % compound interest compounded annually for a time period of 2 years and 8 months. Find the interest he will get?

(CRP CLERK MAINS 2020)

- 1) 540.50
- 2) 480.95
- 3) 522.75
- 4) 612.25
- 5) NOT

2	Answered	1	Not Answered
97	Not Visited	0	Marked for Review
0	Answered & Marked for Review		

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit



यदि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1860 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिये?

If the difference between simple interest and compound interest at 10% p.a rate of interest for 3 years is Rs1860, then find the principal amount?

(LIC ASSISTANT MAINS 2019)

- 1) 60000
- 2) 63000
- 3) 66000
- 4) 65000
- 5) NOT

2	Answered	1	Not Answered
97	Not Visited	0	Marked for Review
0	Answered & Marked for Review		

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 3

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

यदि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1860 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिये?

If the difference between simple interest and compound interest at 10% p.a rate of interest for 3 years is Rs1860, then find the principal amount?

(LIC ASSISTANT MAINS 2019)

- 1) 60000
- 2) 63000
- 3) 66000
- 4) 65000
- 5) NOT

3 Answered 1 Not Answered
96 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 4

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

किस प्रतिशत दर पर 40000 रुपये की राशि दो वर्षों में 44100 रुपये हो जाएगी जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है?

At what percentage rate will the amount of Rs 40000 become Rs 44100 in two years where the interest is compounded annually?

(RRB CLERK PRE 2021)

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 4
- 4) 7.5
- 5) NOT

3 Answered 1 Not Answered
96 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



किस प्रतिशत दर पर 40000 रुपये की राशि दो वर्षों में 44100 रुपये हो जाएगी जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है?

At what percentage rate will the amount of Rs 40000 become Rs 44100 in two years where the interest is compounded annually?

(RRB CLERK PRE 2021)

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 4
- 4) 7.5
- 5) NOT

4 Answered 1 Not Answered
95 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 5

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

कितने वर्षों में मूलधन स्वयं का 81 गुना हो जाएगा यदि 11 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर यह स्वयं का 3 गुना हो जाता है?

In how many years will principal become 81 times of itself if in 11 years at compound interest it becomes 3 times of itself?

(RRB CLERK PRE 2020)

- 1) 22
- 2) 44
- 3) 33
- 4) 56
- 5) NOT

4 Answered 1 Not Answered
95 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 5

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

कितने वर्षों में मूलधन स्वयं का 81 गुना हो जाएगा यदि 11 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर यह स्वयं का 3 गुना हो जाता है?

In how many years will principal become 81 times of itself if in 11 years at compound interest it becomes 3 times of itself?

(RRB CLERK PRE 2020)

- 1) 22
- 2) 44
- 3) 33
- 4) 56
- 5) NOT

5 Answered 1 Not Answered
94 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 6

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

कितने वर्षों में मूलधन स्वयं का 16 गुना हो जाएगा यदि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर यह स्वयं का 8 गुना हो जाता है?

In how many years will principal become 16 times of itself if in 15 years at compound interest it becomes 8 times of itself?

- 1) 24
- 2) 30
- 3) 10
- 4) 20
- 5) NOT

5 Answered 1 Not Answered
94 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



कितने वर्षों में मूलधन स्वयं का 16 गुना हो जाएगा यदि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर यह स्वयं का 8 गुना हो जाता है?

In how many years will principal become 16 times of itself if in 15 years at compound interest it becomes 8 times of itself?

- 1) 24
- 2) 30
- 3) 10
- 4) 20
- 5) NOT

6	Answered	1	Not Answered
93	Not Visited	0	Marked for Review
0	Answered & Marked for Review		

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit



Question Type : singlechoice

QUESTION 7

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

चक्रवृद्धि ब्याज के कारण, कुछ मूलधन 2 वर्षों में 8000 रुपये हो जाता है और 5 वर्षों में 27000 रुपये हो जाता है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए ?

Due to compound interest, some principal becomes Rs 8000 in 2 years and becomes Rs 27000 in 5 years then find principal amount?

- 1) 4000
- 2) 6000
- 3) 5000
- 4) 4200
- 5) NOT

6 Answered 1 Not Answered
93 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



चक्रवृद्धि ब्याज के कारण, कुछ मूलधन 2 वर्षों में 8000 रुपये हो जाता है और 5 वर्षों में 27000 रुपये हो जाता है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए ?

Due to compound interest, some principal becomes Rs 8000 in 2 years and becomes Rs 27000 in 5 years then find principal amount?

- 1) 4000
- 2) 6000
- 3) 5000
- 4) 4200
- 5) NOT

7	Answered	1	Not Answered
92	Not Visited	0	Marked for Review
0	Answered & Marked for Review		

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit



Question Type : singlechoice

QUESTION 8

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

दो बैंक समान राशि उधार देते हैं जैसे कि पहला बैंक 15% साधारण ब्याज पर और दूसरा 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्ष के बाद ब्याज में 417 रुपये का अंतर है तो मूलधन ज्ञात कीजिए ?

Two banks lend equal amount such that first bank lends at 15% SI and second at 20% CI. After 3 years difference in there interest is Rs 417 then find the principal amount ?

- 1) 2000
- 2) 1500
- 3) 3000
- 4) 4000
- 5) NOT

7 Answered 1 Not Answered
92 Not Visited 0 Marked for Review
0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APT.

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



दो बैंक समान राशि उधार देते हैं जैसे कि पहला बैंक 15% साधारण ब्याज पर और दूसरा 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्ष के बाद ब्याज में 417 रुपये का अंतर है तो मूलधन ज्ञात कीजिए ?

Two banks lend equal amount such that first bank lends at 15% SI and second at 20% CI. After 3 years difference in there interest is Rs 417 then find the principal amount ?

- 1) 2000
- 2) 1500
- 3) 3000
- 4) 4000
- 5) NOT

8	Answered	1	Not Answered
91	Not Visited	0	Marked for Review
0	Answered & Marked for Review		

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

Submit



Question Type : singlechoice

QUESTION 9 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

8 Answered 1 Not Answered

91 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

[Submit](#)

[Mark for Review & Next](#)

[Clear Response](#)

[Save & Next](#)

मिशन BANK 2023



QUANTITATIVE APTITUDE

Question Type : singlechoice

QUESTION 9 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

9 Answered 1 Not Answered

90 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- | | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | |

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 10 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

9 Answered 1 Not Answered

90 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 10 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

10 Answered 1 Not Answered

89 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- | | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | |

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 11 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

10 Answered 1 Not Answered

89 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- | | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | |

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next

मिशन BANK 2023



QUANTITATIVE APTITUDE

Question Type : singlechoice

QUESTION 11 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

11 Answered 1 Not Answered

88 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- | | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | |

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 12 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

11 Answered 1 Not Answered

88 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1 2 3 4
- 5 6 7 8
- 9 10 11 12
- 13 14 15 16
- 17 18 19 20
- 21 22 23 24
- 25 26 27 28
- 29 30

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next

मिशन BANK 2023



QUANTITATIVE APTITUDE

Question Type : singlechoice

QUESTION 12 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

12 Answered 1 Not Answered

87 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1 2 3 4
- 5 6 7 8
- 9 10 11 12
- 13 14 15 16
- 17 18 19 20
- 21 22 23 24
- 25 26 27 28
- 29 30

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 13 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

12 Answered 1 Not Answered

87 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- | | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | |

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next

मिशन BANK 2023



QUANTITATIVE APTITUDE

Question Type : singlechoice

QUESTION 13 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

13 Answered 1 Not Answered

86 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1 2 3 4
- 5 6 7 8
- 9 10 11 12
- 13 14 15 16
- 17 18 19 20
- 21 22 23 24
- 25 26 27 28
- 29 30

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 14 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

13 Answered 1 Not Answered

86 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1 2 3 4
- 5 6 7 8
- 9 10 11 12
- 13 14 15 16
- 17 18 19 20
- 21 22 23 24
- 25 26 27 28
- 29 30

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 14 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question content.

14 Answered 1 Not Answered

85 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1 2 3 4
- 5 6 7 8
- 9 10 11 12
- 13 14 15 16
- 17 18 19 20
- 21 22 23 24
- 25 26 27 28
- 29 30

[Submit](#)

[Mark for Review & Next](#) [Clear Response](#)

[Save & Next](#)



Question Type : singlechoice

QUESTION 15 Right mark: 1 Negative mark: 0.25

Blank area for the question and answer.

14 Answered 1 Not Answered

85 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next



Question Type : singlechoice

QUESTION 15

Right mark: 1 Negative mark: 0.25

15 Answered 1 Not Answered

84 Not Visited 0 Marked for Review

0 Answered & Marked for Review

QUANTITATIVE APTITUDE

Choose a Question

- 1 2 3 4
- 5 6 7 8
- 9 10 11 12
- 13 14 15 16
- 17 18 19 20
- 21 22 23 24
- 25 26 27 28
- 29 30

Submit

Mark for Review & Next

Clear Response

Save & Next